



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-Section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 373

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 30, 1979/अग्राहायण 9, 1901

No. 373] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 30, 1979/AGRAHAYANA 9, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

गृह मंत्रालय

(कालिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 1979

सं० का० लि० 654 (अ):—भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) नियम, 1954 के नियम 4 के उप नियम (1) तथा उप-नियम (2) के प्रथम परन्तुक के साथ पठित अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61 वां) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार महाराष्ट्र सरकार की सहमति से एतद्वारा भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग संख्या का निर्धारण) विनियम, 1955 में और भागे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विधियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) ये विनियम भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग संख्या का निर्धारण) चौथा संशोधन विनियम, 1979 कहलाएंगे ।

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।

2. भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग संख्या का निर्धारण) विनियम, 1955 की अनुसूची में शीर्ष "महाराष्ट्र" तथा उसके अधीन हुई प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

महाराष्ट्र

राज्य सरकार के अधीन शरिष्ठ पद

पुलिस महानिरीक्षक

पुलिस विशेष महानिरीक्षक

913 GI/78

89

1

1

निदेशक, सतर्कता, भ्रष्टाचार-विरोधी

तथा निषिद्ध आसूचना ब्यूरो

पुलिस आयुक्त, बम्बई

पुलिस अपर आयुक्त, बम्बई

पुलिस आयुक्त, पुणे

पुलिस आयुक्त, नागपुर

पुलिस उप-महानिरीक्षक

प्रिन्सिपल, पुलिस प्रशिक्षण कालेज, नासिक

पुलिस उप-आयुक्त, बम्बई

पुलिस उप-आयुक्त, पुणे

पुलिस उप-आयुक्त, नागपुर

पुलिस सहायक महानिरीक्षक

पुलिस अधीक्षक, सी० आई० डी०

पुलिस अधीक्षक

पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार विरोधी

तथा निषिद्ध, आसूचना ब्यूरो

पुलिस अधीक्षक, रेलवे

पुलिस अधीक्षक, ट्रैफिक

पुलिस अपर अधीक्षक

स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स के समावेष्टा (कमान्डेन्ट)

2. उक्त 1 का 40% केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति आरक्षण

3. उक्त 1 तथा 2 का 33% की दर से भारतीय पुलिस

सेवा (भर्ती) नियम, 1954 के नियम 9 के अधीन

पदोन्नति और चयन द्वारा भरे जाने वाले पद

4. सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद (उक्त 3 बटाकर

1 तथा 2)

1

1

2

1

1

10

1

11

4

4

3

6

25

1

2

1

5

8

89

36

41

84

(1371)

5. उक्त 4 का 22.5% के हिसाब से प्रतिनियुक्ति भारक्षण	19
6. उक्त 4 का 5.62% की दर से छुट्टी भारक्षण	5
7. उक्त 4 का 23.17% कनिष्ठ पद	19
8. उक्त 4 का 11.91 प्रशिक्षण भारक्षण	10
सीधे भर्ती पद	137
पदोन्नत पद	41
कुल प्राधिकृत संख्या	178

विशेष नोट :—उल्लिखित संशोधन संरचना तथा संख्या से पहले महाराष्ट्र की कुल प्राधिकृत संवर्ग संख्या 164 थी।

[सं० 11052/6/79-ए० आई० एस० (2)-ए]

### MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Department of Personnel and Administrative Reforms)

#### NOTIFICATIONS

New Delhi, the 30th November, 1979

**G.S.R. 654(E).**—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 3 of All India Services Act, 1951 (61 of 1951), read with sub-rule (1), and the first proviso to sub-rule (2) of Rule 4 of the Indian Police Service (Cadre) Rules, 1954, the Central Government, in consultation with the Government of Maharashtra hereby makes the following regulations further to amend the Indian Police Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, namely:—

- (1) These regulations may be called the Indian Police Service (Fixation of Cadre Strength) Fourth Amendment Regulations, 1979.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Indian Police Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955 for the heading "Maharashtra" and the entries occurring thereunder the following shall be substituted, namely:—

#### MAHARASHTRA

1. Senior posts under the State Government	89
Inspector General of Police	1
Special Inspector General of Police	1
Director, Vigilance, Anti-Corruption and Prohibition Intelligence Bureau	1
Commissioner of Police, Bombay	1
Additional Commissioner of Police, Bombay	2
Commissioner of Police, Pune	1
Commissioner of Police, Nagpur	1
Deputy Inspectors General of Police	10
Principal, Police Training College, Nasik	1
Deputy Commissioner of Police, Bombay	11
Deputy Commissioner of Police, Pune	4
Deputy Commissioner of Police, Nagpur	4
Assistant Inspector General of Police	3
Superintendent of Police, CID	6
Superintendent of Police	25
Superintendent of Police, Anti-Corruption and Prohibition, Intelligence Bureau	1
Superintendent of Police, Railways	2
Superintendent of Police, Traffic	1
Additional Superintendent of Police	5

Commandants of the State Reserve Police Force	8
2. Central Deputation Reserve at 40% of 1 above	89
3. Posts to be filled by promotion and selection under Rule 9 of Indian Police Service (Recruitment) Rules, 1954 @ 33½% of 1 and 2 above	36
4. Posts to be filled by direct recruitment 1 and 2 minus 3 above	41
5. Deputation Reserve at 22.5% of 4 above	84
6. Leave Reserve at 5.62% of 4 above	19
7. Junior posts @ 23.17% of 4 above	5
8. Training Reserve @ 11.91% of 4 above	19
10	10
Direct Recruitment posts	137
Promotion Posts	41
Total Authorised Strength	178

N.B.—The total authorised cadre strength of Maharashtra prior to the revised composition and strength as given above was 164.

[सं० 11052/6/79-A.I.S.(II)-A]

सा० का० नि० 655 (अ) — भारतीय पुलिस सेवा (वैतन) नियम, 1954 के नियम 11 के साथ पठित अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रवक्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार महाराष्ट्र सरकार की सहमति से एतद्वारा भारतीय पुलिस सेवा (वैतन) नियम, 1954 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) ये नियम भारतीय पुलिस सेवा (वैतन) सातवां संशोधन नियम, 1979 कहलाएंगे।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. भारतीय पुलिस सेवा (वैतन) नियम, 1954 की अनुसूची 3 में:—

(क) शीर्ष "क" के अधीन—राज्य सरकारों के अधीन भारतीय पुलिस सेवा में वरिष्ठ वेतनमान से ऊपर वेतन वाले पद" सारणी में, पहले कालम में और दूसरे व तीसरे कालम की अनुवर्ती प्रविष्टियों में "महाराष्ट्र" के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

पुलिस महानिरीक्षक	2500-125/2-2750
पुलिस विशेष महानिरीक्षक	2500-125/2-2750
निदेशक, सतर्कता प्रणाली बिरोधी	2500-125/2-2750
तथा निविद्ध, आयुषना ब्यूरो	
पुलिस आयुक्त, बम्बई	2500-125/2-2750
पुलिस अपर आयुक्त, बम्बई	2000-125/2-2250
पुलिस आयुक्त, पुणे	2000-125/2-2250
पुलिस आयुक्त, नागपुर	2000-125/2-2250
पुलिस उप-महानिरीक्षक	2000-125/2-2250
प्रिन्सिपल पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज, नासिक	2000-125/2-2250

(ख) शीर्ष "ख" के अधीन—"राज्य सरकारों के अधीन भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ वेतनमान में वेतन वाले पद, जिसमें समय वेतनमान में वेतन के अलावा विशेष वेतन वाले पद भी शामिल हैं," सारणी में, पहले कालम में और दूसरे कालम

की अनुवर्ती प्रविष्टियों में "महाराष्ट्र" के स्थान पर निम्न-लिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

महाराष्ट्र : पुलिस उप आयुक्त, बम्बई ।  
 पुलिस उप आयुक्त, पुणे ।  
 पुलिस उप आयुक्त, नागपुर ।  
 पुलिस सहायक महा-निरीक्षक ।  
 पुलिस अधीक्षक, सी० आई० डी० ।  
 पुलिस अधीक्षक, ट्रैफिक ।  
 पुलिस अपर अधीक्षक ।  
 राज्य रिजर्व पुलिस बल के समानेष्टा ।  
 पुलिस अधीक्षक ।  
 पुलिस अधीक्षक (रेलवे)  
 पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार-विरोधी  
 तथा निषिद्ध, आसूचना ब्यूरो

[सं० 11052/6/79-ए० आई० एस० (II)-बी]]

वी० आर० श्रीनिवासन, अवर सचिव

**G.S.R.655(E):**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), read with rule 11 of the Indian Police Service (Pay) Rules, 1954, the Central Government in consultation with the Government of Maharashtra, hereby makes the following rules further to amend the Indian Police Service (Pay) Rules, 1954, namely:—

1. (i) These rules may be called the Indian Police Service (Pay) Seventh Amendment Rules, 1979.
- (ii) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.
2. In Schedule III to the Indian Police Service (Pay) Rules, 1954:—
- (a) Under the heading "A-Posts carrying pay above the senior scale in the Indian Police Service under the State Governments" in the Table, for the entry "Maharashtra" occurring in the first column and the corresponding en-

tries in the second and third columns, the following shall be substituted, namely:—

#### MAHARASHTRA

Inspector General of Police	2500-125/2-2750.
Special Inspector General of Police	2500-125/2-2750.
Director, Vigilance, Anti-Corruption and Prohibition Intelligence Bureau	2500-125/2-2750.
Commissioner of Police, Bombay	2500-125/2-2750.
Additional Commissioner of Police, Bombay	2000-125/2-2250.
Commissioner of Police, Pune	2000-125/2-2250.
Commissioner of Police, Nagpur	2000-125/2-2250.
Deputy Inspectors General of Police	2000-125/2-2250.
Principal, Police Training College, Nasik	2000-125/2-2250.

- (b) Under the heading "B-Posts carrying pay in the senior scale of the Indian Police Service under the State Governments including posts carrying special pay in addition to pay in the time scale" in the Table, for the entry "Maharashtra" occurring in the first column and the corresponding entries in the second column, the following shall be substituted, namely:—

#### MAHARASHTRA

Deputy Commissioners of Police, Bombay.  
 Deputy Commissioners of Police, Pune.  
 Deputy Commissioners of Police, Nagpur.  
 Assistant Inspector General of Police.  
 Superintendents of Police, CID.  
 Superintendents of Police, Traffic.  
 Additional Superintendents of Police.  
 Commandants of the State Reserve Police Force.  
 Superintendents of Police.  
 Superintendents of Police (Railways).  
 Superintendents of Police, Anti-Corruption and Prohibition, Intelligence Bureau.

[No.11052/6/79-A.I.S.(II)-B].

V.R. SRINIVASAN, Under Secy.

